



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 1975/पौष 30, 1896

No. 29] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 1975/PAUSA 30, 1896

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

ORDER

New Delhi, the 20th January 1975

S.O. 41(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (4), read with sub-section (5), of section 53 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, (81 of 1971), the Central Government hereby directs that the Assam State Electricity Board, constituted by the Notification of the Government of Assam No. PE.134/74, dated the 20th January, 1975, and the Meghalaya State Electricity Board, constituted by the Notification of the Government of Meghalaya No. PE. 304/74, dated 21st December, 1974, shall, with effect from the date of this Order, take over from the Assam State Electricity Board, constituted for the composite State of Assam by the Notification of the Government of Assam No. PDEL 60/58, dated the 27th May, 1958, and referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 53 of the said Act (hereinafter referred to as the "composite State Electricity Board"), the undertakings, assets, rights and liabilities and employees of the composite State Electricity Board specified in Part I and Part II respectively of the Schedule hereto annexed.

THE SCHEDULE

PART I

Undertakings, assets, rights and liabilities and employees to be taken over by the Assam State Electricity Board.

- (i) The power generating stations along with power transmission and distribution systems; projects under construction for the generation, transmission, distribution and utilization of power; and power line carrier communication equipments which are situated in the State of Assam.
- (ii) Land, buildings, plant and machinery, tools and equipments, stores, office furniture and equipment and fittings and stationery, appurtenant or relatable to the installations and works referred to in paragraph (i) and vehicles which are in use in connection with, or for the purposes of, the said installations and works immediately before the date of this Order.
- (iii) All rights, liabilities and obligations relating to, or arising out of, the installations and works referred to in paragraph (i) and existing immediately before the date of this Order.
- (iv) Employees serving in connection with the installations and works, referred to in paragraph (i), on the same terms and conditions of service as were applicable to them immediately before the commencement of this Order.

PART II

Undertakings, assets, rights and liabilities and employees, to be taken over by the Meghalaya State Electricity Board

- (i) The power generating stations along with power transmission and distribution systems; projects under construction for the generation, transmission, distribution and utilization of power; power line carrier communication equipment; meter factory, and Central Mechanical Division (Sumer), which are situated in the State of Meghalaya.
- (ii) Land, buildings, plant and machinery, tools and equipments, stores, office furniture and equipment, fittings and stationery, appurtenant or relatable to the installations and works referred to in paragraph (i) and vehicles which are in use in connection with, or for the purposes of, the said installations and works immediately before the date of this Order.
- (iii) All rights, liabilities and obligations relating to, or arising out of, the installations and works referred to in paragraph (i) and existing immediately before the date of this Order.
- (iv) Employees serving in connection with the installations and works referred to in paragraph (i) on the same terms and conditions of service as were applicable to them immediately before the commencement of this Order.

[No. EL. II-3(11)/73]

R. V. SUBRAHMANYAN, Secy.

ऊजा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

अदिशे

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1975

क्रा० आ० 41 (अ) — पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) आ नियम, 1971 (1971 का 81) की प्रा० 53 की उपधारा (5) के साथ पठित; उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदिष्ट करती है कि असम सरकार की अधिसूचना सं० पी-ई-एल० 134/74, तारीख 20 जनवरी, 1975 द्वारा गठित असम राज्य विद्युत बोर्ड और मेघालय

सरकार की अधिसूचना सं० पी०ई०-304/74, तारीख 21 दिसम्बर, 1974 द्वारा गठित मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड, इस आदेश की तारीख से ही, असम सरकार की अधिसूचना सं० पी०ई० एल० 50/58, तारीख 27 मई, 1958 द्वारा संमिश्र असम राज्य के लिए गठित और उक्त अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट असम राज्य विद्युत बोर्ड से (जिसे इसमें इसके अन्वये "संमिश्र राज्य विद्युत बोर्ड" कहा गया है), संमिश्र राज्य विद्युत बोर्ड के वे उपक्रम, आस्तियाँ, अधिकार और दायित्व तथा कर्मचारी जो इसमें उल्लिखित अनुसूची के क्रमशः भाग 1 और भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं, ग्रहण कर लेंगे।

अनुसूची

भाग 1

असम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ग्रहण किए जाने वाले उपक्रम आस्तियाँ, अधिकार और दायित्व तथा कर्मचारी

- (i) विद्युत पारेषण तथा वितरण पद्धतियों के साथ-साथ विद्युत उत्पादन केन्द्र; विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और उपयोग के लिए सन्निर्माणाधीन परियोजनाएँ; तथा विद्युत तार वाहक संचार उपकरण, जो असम राज्य में स्थित हैं।
- (ii) वह भूमि, वे भवन, वह संयंत्र और मशीनरी, वे औजार और उपकरण, वे भण्डार, वह कार्यालय फर्नीचर और उपकरण तथा वे फिटिंग्स और स्टेशनरी जो पैरा (i) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठापनों और निर्माणों से अनुलग्न या संबंधित हैं, तथा वे यान जो इस आदेश की तारीख से ठीक पहले उक्त प्रतिष्ठापनों और निर्माणों के सम्बन्ध में या उनके प्रयोजनों के लिए उपयोगरत हैं।
- (iii) पैरा (i) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठापनों और निर्माणों से सम्बन्धित या उनसे उद्भूत होने वाले तथा इस आदेश की तारीख से ठीक पहले विद्यमान सब अधिकार, दायित्व और बाध्यताएँ।
- (iv) पैरा (i) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठापनों और निर्माणों के सम्बन्ध में सेवारत कर्मचारी, सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जो इस आदेश के प्रारम्भ होने के ठीक पहले उनको लागू थीं।

भाग 2

मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ग्रहण किए जाने वाले उपक्रम, आस्तियाँ, अधिकार और दायित्व तथा कर्मचारी

- (i) विद्युत पारेषण तथा वितरण पद्धतियों के साथ-साथ विद्युत उत्पादन केन्द्र; विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और उपयोग के लिए सन्निर्माणाधीन परियोजनाएँ; तथा विद्युत तार वाहक संचार उपकरण; मीटर कारखाना, तथा केन्द्रीय यान्त्रिक प्रभाग (सुमेर), जो मेघालय राज्य में स्थित हैं।
- (ii) वह भूमि, वे भवन, वह संयंत्र और मशीनरी, वे औजार और उपकरण, वे भण्डार, वह कार्यालय फर्नीचर और उपकरण तथा वे फिटिंग्स और स्टेशनरी जो पैरा (i) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठापनों और निर्माणों से अनुलग्न या सम्बन्धित हैं, तथा वे यान जो इस आदेश की तारीख से ठीक पहले उक्त प्रतिष्ठापनों और निर्माणों के सम्बन्ध में या उनके प्रयोजनों के लिए उपयोगरत हैं।

- (iii) पैरा (i) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठापनों और निर्माणों से संबंधित या उनसे उद्भूत होने वाले तथा इस आदेश की तारीख से ठीक पहले विद्यमान सब अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं ।
- (iv) पैरा (i) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों और निर्माणों के सम्बन्ध में सेवारत कर्मचारी, सेवा के उन्हीं नियंत्रणों और शर्तों पर जो इस आदेश के प्रारंभ होने के ठीक पहले उनको लागू थीं ।

[सं० ई०एल०II-3(11)/73]

आर० बी० सुब्रह्मण्यन, सचिव ।